

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 22—नवम्बर 28, 2014 (अग्रहायण 1, 1936)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 22—NOVEMBER 28, 2014 (AGRAHAYANA 1, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली—110069, दिनांक 31 अक्टूबर 2014

सं. ए. 38013/02/2014—प्रशासन. II—संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में कार्यरत श्रीमति गौरी देवी, अधीक्षक (डी. पी.) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.10.2014 (31 अक्टूबर 2014) के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रही हैं।

सुरेश कुमार नायक
अवर सचिव (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली—110003, दिनांक 24 सितम्बर 2014

संख्या: डी.एक. 9/2009-2013-कार्मिक.डी.ए.-आठ—गृह मंत्रालय के पत्र संख्या I-21022/1/2013-कार्मिक—दो दिनांक 04/04/2014 और उप सचिव गृह (आरक्षी) विभाग सरकार बिहार अधिसूचना संख्या 2/D-01-203/09(Part-II) G.R 4974/Patna-15

दिनांक 18/06/2014 के तहत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के श्री ललन कुमार पाण्डेय उप कमान्डेन्ट (ईरला-6445) का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (परिचालन) के पद पर बिहार के नक्सल प्रभावित जिलों में प्रतिनियुक्ति पर 03 वर्षों के लिए चयन हो जाने के फलस्वरूप इनकी सेवाएँ दिनांक 24/09/2014 (अप्र0) से महानिदेशक बिहार पुलिस के निपटान (DISPOSAL) पर रहेंगी

एम. सी. पॅवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 27 अक्टूबर 2014

संख्या—ओ.दो.3994/2014—कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी डॉ0 एस मसूद हैदर, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600—39,100 + ग्रेड वेतन रुपये 5400/— में चिकित्साधिकारी/सहायक कमान्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 17.10.2014 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक अस्थायी तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम सी पॅवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

संख्या—ओ.दो.3995/2014—कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी डॉ0 विवेकानन्द, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600—39,100 + ग्रेड वेतन रुपये 5400/— में चिकित्साधिकारी/सहायक कमान्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 20.10.2014 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक अस्थायी तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम सी पॅवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

संख्या—ओ.दो.3996/2014—कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी डॉ0 सुशील कुमार, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600—39,100 + ग्रेड वेतन रुपये 5400/— में चिकित्साधिकारी/सहायक कमान्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 20.10.2014 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक अस्थायी तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम सी पॅवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

संख्या—ओ.दो.3997/2014—कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी डॉ0 अजीत के0टी0, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600—39,100 + ग्रेड वेतन रुपये 5400/— में चिकित्साधिकारी/सहायक कमान्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 15.10.2014 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक अस्थायी तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम सी पॅवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

संख्या—ओ.दो.3998/2014—कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी डॉ0 बेन्जामिन सेब, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600—39,100 + ग्रेड वेतन रुपये 5400/— में चिकित्साधिकारी/सहायक कमान्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 22.10.2014 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक अस्थायी तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम सी पॅवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 31 अक्टूबर 2014

संख्या-ओ.दो.3999/2014-कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी डॉ0 एस एमडी इकबाल, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में चिकित्साधिकारी/सहायक कमाण्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 21.10.2014(पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक अस्थायी तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम सी पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

संख्या-ओ.दो.4000/2014-कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी डॉ0 सोनाली भट्टाचार्य, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में चिकित्साधिकारी/सहायक कमाण्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 21.10.2014(पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक अस्थायी तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम सी पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

संख्या-ओ.दो.4003/2014-कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी डॉ0 शेखर रेड्डी नालाबोलु, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में चिकित्साधिकारी/सहायक कमाण्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 27.10.2014(पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक अस्थायी तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम सी पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

संख्या-ओ.दो.4004/2014-कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी डॉ0 देवेश चटर्जी, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में चिकित्साधिकारी/सहायक कमाण्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 28.10.2014 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक अस्थायी तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम सी पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

संख्या-ओ.दो.4005/2014-कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी डॉ0 ईश्वरा वेंकट किरन, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में चिकित्साधिकारी/सहायक कमाण्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 28.10.2014 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक अस्थायी तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम सी पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) का कार्यालय, ओडिशा

भुवनेश्वर, दिनांक 5 नवम्बर 2014

सं. प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-VIII/1984—ज्ञापन सं प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-VIII/1961 दिनांक 31.10.2014 द्वारा सूचित कार्यालय आदेश 'ग' 844 दिनांक 31.10.2014 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों की पदोन्नति होने पर उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तिथि से वेतन बैंड-2 (₹ 9300 - ₹ 34800/-) एवं सादृश्य ग्रेड वेतन ₹ 5400/- पर लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है:—

क्र. संख्या	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)	लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
01.	भावग्राही पैकरे	03.11.2014 पूर्वाह्न
02.	समीर कुमार पण्डा	03.11.2014 पूर्वाह्न

भगवान नायक
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई - 400 085, दिनांक 31 अक्टूबर 2014

सं. पीडी/9(1)/2014-भर्ती-IV/12715----राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में उनके नाम के आगे उल्लिखित कॉलम 3 से 5 में दर्शाये गये पद, वेतनमान तथा नियुक्ति तिथी में, आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति पद	वेतमान (₹)	नियुक्ति तिथी
1	2	3	4	5
1.	डॉ. गौतम कुमार कोले	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	15600-39100+6600 (ग्रेड पे)	05.08.2014 (पूर्वाह्न)
2.	डॉ. विवेक विजय पारकर	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	15600-39100+6600 (ग्रेड पे)	07.08.2014 (पूर्वाह्न)
3.	डॉ. रोहिणी गर्ग	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	15600-39100+6600 (ग्रेड पे)	13.08.2014 (अपराह्न)
4.	श्री अर्घ्य चट्टराज	वैज्ञानिक अधिकारी-सी	15600-39100+5400 (ग्रेड पे)	11.09.2014 (पूर्वाह्न)
5.	श्री सन्दीपन दाँ	वैज्ञानिक अधिकारी-सी	15600-39100+5400 (ग्रेड पे)	11.09.2014 (पूर्वाह्न)

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 3 नवम्बर 2014

सं. पीडी/2(21)/2012-भर्ती-IV----राष्ट्रपति, श्री. वेलागा श्रीहरी, को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी 'डी' के पद पर ₹ 15600 – 39100 + 6600(ग्रेड पे) के वेतमान में 14 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400 001, दिनांक 31 अक्टूबर 2014

सं. 20/17(2)/2013-सीसीएस/13584----अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई के संयुक्त निदेशक (राभा), श्री प्रवीण कुमार चोपड़ा अपनी सरकारी सेवा से दिनांक 30.09.2014 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो गये हैं।

ए. सुकुमारन
अवर सचिव

सं. 20/17(2)/2013-सीसीएस/13585----राष्ट्रपति, इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई के सहायक कार्मिक अधिकारी (पीबी-2 रु. 9,300-34,800 +ग्रेड वेतन रु. 5,400) श्री पी. सेथुमाधवन को दिनांक 30.07.2014 (पूर्वाहन) से 12.09.2014 (अपराहन) तक के लिए उसी इकाई में तदर्थ आधार पर प्रशासनिक अधिकारी-III (पीबी-3 रु. 15,600-39,100 +ग्रेड वेतन रु. 6600) के रूप नियुक्त करते हैं।

ए. सुकुमारन
अवर सचिव

क्रय और भंडार निदेशालय

मुंबई 400 094, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

सं. क्रभनि/07019/भर्ती/3788----निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, कु. मीनू के. ग़ोवर, वरिष्ठ भंडारी, (वेतन बैंड (पीबी-2) रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4200), केंद्रीय भंडार एकक, क्रय और भंडार निदेशालय, मुंबई को सहायक भंडार अधिकारी के पद पर वेतन बैंड (पीबी-2) रु. 9300-34800 + ग्रेड वेतन रु. 4800, में भंडार एकक, क्रय और भंडार निदेशालय, नाभिकीय पुनश्चक्रण बोर्ड, तारापुर में दिनांक 26 सितम्बर, 2014 के पूर्वाहन से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस. वाय. कांबळे
प्रशासन अधिकारी-III

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400 094, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

सं. निसेसंप्रनि/प्र/2(199)/2014-भर्ती/1906----राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को आगामी आदेशों तक निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में उनकी पदोन्नति होने पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित दिनांक तथा ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

क्र.सं.	नाम	पदोन्नत ग्रेड	वेतन बैंड (रु.)	ग्रेड वेतन (रु.)	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री एन. पी. विसपूते	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	पीबी 4 37400 -67000	8700	01.07.2014 (पूर्वाहन)
2.	श्री के उन्नीकृष्णन	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	पीबी 4 37400 -67000	8700	01.07.2014 (पूर्वाहन)
3.	श्री ए.के.माथुर	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	पीबी 4 37400 - 67000	8700	01.07.2014 (पूर्वाहन)
4.	श्री सतीश कुमार सैनी	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	पीबी 4 37400 - 67000	8700	01.07.2014 (पूर्वाहन)
5.	श्री समीर जे जाधव	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	पीबी 4 37400 - 67000	8700	01.07.2014 (पूर्वाहन)

बी. जगन मोहन राव
प्रशासन अधिकारी-III

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर-208002, दिनांक 10 नवम्बर 2014

सं०: 560(3)/9619—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई प्रतिकूल कारण न दर्शाये जाने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन नंबर	एस आर एन
1	2	3	4
1	कल्पब्रक्ष रिसोर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2013PTC060017	C17386905
2	कुडोस लेबोरेटरीस प्राइवेट लिमिटेड	U24233UP2009PTC036673	C22184972
3	ए एम क्रिस्टल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2007PTC033103	C22340707
4	रिलाइफ फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U65923UP2012PLC049018	C22389969
5	माइंडसिस इन्फोटेक लिमिटेड	U72200UP1996PLC019258	C22590194
6	आर के एस मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	U93030UP2012PTC049683	C22679096
7	कोरोहोम इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2012PTC049001	C22745947
8	गुरु किपा वेब सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2009PTC038900	C22774475
9	इन्नोवा फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U24232UP1993PTC015626	C22857940
10	वाहइट थ्रेड क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड	U17291UP2012PTC050385	C23288814
11	एजूसकालर नालेज मैनेजमेंट इन्सट्यूट प्राइवेट लिमिटेड	U80301UP2008PTC036431	C23474323
12	प्रथिवी इन्फ्राप्रमोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2010PTC039901	C23585615
13	इन्डस पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड	U40300UP2011PTC044961	C23587983
14	जेरो हावर मीडिया एण्ड कम्प्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U22300UP2008PTC035426	C23686173
15	डिस्कवर बिल्डर्स एण्ड प्रमोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2007PTC033236	C23720303
16	ए एल के इन्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC057160	C23753122
17	शास्त्र इनेवेशन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	U35122UP2013PTC057822	C23846900
18	स्टैन्फोर्ड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	U80904UP2013PTC059271	C23850597
19	रेप फनिशिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U36101UP2006FTC034597	C24302655
20	एम एस कान्ट्रैक्टर्स एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2000PTC025391	C24627069
21	अखिल अमित आयरन एण्ड स्टील कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	U27310UP2012PTC052719	C24878647
22	भारती फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	U65910UP1989PTC010702	C25237447
23	रिधिमा इंडिबिल्स प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2010PTC042904	C25334939
24	बीजनटवन्टीवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2008PTC035151	C25381583
25	रियलफ्यूचर मेगामार्ट एण्ड इन्वोयर्स कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC045935	C26295055
26	ऐसलेस एण्ड ब्याएज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2011PTC047333	C25118720
27	आकृति इन्फाकान प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2011PTC043266	C25495979

1	2	3	4
28	नेविसलाजिक साफ्टवेयर सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2012PTC051163	C25302506
29	आरकान्सेप्टस कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC045935	C26295055
30	दोआब इनर्जी लिमिटेड	U40300UP2011PLC046724	C26470393
31	इकोग्रीन रियलइस्टेट इण्डिया लिमिटेड	U70102UP2010PLC041380	C26933283
32	शलभ राधिका डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	U18204UP2013PTC055534	C28294320
33	अस्थाना इन्फोसाफ्ट सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2012PTC049710	C28491041
34	एन एस जी इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U31908UP2013PTC059727	C28332708
35	गुलाबचंद छोटेलाल आयरन फाउन्डी प्राइवेट लिमिटेड	U27202UP1997PTC022758	C28814226
36	जियोद्रष्टी इन्फोसेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2009PTC036598	C28890416
37	इज मेडिकल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2010PTC039650	C29042835
38	मल्टीफाइव कंज्यूमर स्टोर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U52100UP2010PTC042487	C29212818
39	रिवेरो इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U31908UP2010PTC039367	C29296985
40	रोल काल मैनेजमेंट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	U93030UP2011PTC046291	C29346384
41	पिनाकेल इन्फारियलर्टस प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2012PTC050446	C29511383
42	सिधविनायक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51101UP2013PTC057233	C30114193
43	सत्यसाई फाइनेंसियल एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	U67190UP2012PTC049548	C30114664
44	विनीत डेयरी प्राइवेट लिमिटेड	U15200UP2005PTC030184	C30115141
45	एनीमेशन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	U80904UP2009PTC036965	C30173439

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
चंडीगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2014

सं. आर ओ सी/560(5)/एफ टी ई/2013—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विधिद्विती हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है।

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
1	2	3
1	28422	न्यू वेस्ट फैशन प्राइवेट लिमिटेड
2	35223	परपल पैच इमीग्रेशन कनसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3	32307	सारथी इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
4	34835	करेडेंस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
5	27045	दशमेश सोलवैक्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
6	34534	ए2जैड बिजनैट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
7	12469	एंजल मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
8	26922	हिमाचल हाईवेस प्राइवेट लिमिटेड
9	30865	शिवा फरनीशिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
10	25999	ईस्ट वैस्ट फोरैक्स प्राइवेट लिमिटेड
11	37234	के जी दुगल यूनीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
12	34524	सुरेशवारम एंटरप्राइसिस प्राइवेट लिमिटेड
13	34650	एसएसकेपी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड
14	30841	आईडियो इनफोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
15	35544	कार्बन एनर्जी रिसोर्सिस प्राइवेट लिमिटेड
16	17896	अंजलि स्टीलस प्राइवेट लिमिटेड
17	35529	अजीत इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
18	37332	डीबीए मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
19	36658	एस एन मोटलस एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
20	33238	बीडीएस इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
21	34415	ग्लोबकेयर फार्मास्यूटिकलस प्राइवेट लिमिटेड
22	33348	एस जे इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
23	31516	अंबे यार्नस एंड फाइबरस प्राइवेट लिमिटेड
24	17697	संत डोरस प्राइवेट लिमिटेड
25	31798	गोहोटो ट्रेवलस प्राइवेट लिमिटेड
26	19576	एलएनजी ओटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
27	08261	क्रीएटीव कनसोर्टस प्राइवेट लिमिटेड
28	31525	एवन ब्रीवरीस प्राइवेट लिमिटेड
29	34928	विवास्टेट.कॉम प्रोपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
30	37227	क्रिशन सोम एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
31	31006	मोबेरा इम्बैडिड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
32	34144	अपन टेक्नॉलोजीस प्राइवेट लिमिटेड

विलास गजानन निपाने
सह रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
पंजाब एण्ड चण्डीगढ़

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. हौल्लेंडिया बिज़नेस कंसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 01 नवम्बर 2014

सं. 5093—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. हौल्लेंडिया बिज़नेस कंसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

सुधीर लीलाधर फाये
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम 1956 और निम्न लिखित कंपनियों के बारे में

कोच्चि-682021, दिनांक 25 सितम्बर 2014

सं. नोटिस 560 (5)/एफटिड-2014—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न लिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कंपनी विघटित हो गई हैं 1

क्रम सं:	पंजीकरण नंबर	कंपनी का नाम
1	2	3
1	U15495KL1987PLC004677	केयस स्पेस एण्ड अग्रा इनडस्ट्रीज़ लिमिटेड
2	U60230KL2012PTC032697	कन्नूर लोजिस्टिक्स सेंटर प्राैवट लिमिटेड
3	U63040KL2006PTC019129	चलंजर अन अडवेनटर टूरिसम प्राैवट लिमिटेड
4	U74900KL2013PTC033913	जेबि वेनटुर्स प्राैवट लिमिटेड
5	U51398KL2006PTC019524	एक्स-पाटस ज्वलस प्राैवट लिमिटेड
6	U72200KL2011PTC027788	वजरंग इनफोटेक प्राैवट लिमिटेड
7	U63040KL2010PTC026081	इकोस्पेस टूरिसम इन्वोवेशन्ज़ नेटवर्क प्राैवट लिमिटेड
8	U52393KL2009PTC024020	ब्लाक-गोल्ड स्पेस & फुडज़ प्राैवट लिमिटेड
9	U45201KL2006PTC019782	केरला हाबिटाट इंजिनियर्स एण्ड बिलडर्ज़ प्राैवट लिमिटेड
10	U55100KL2010PTC025339	आराम होलिडेज़ प्राैवट लिमिटेड
11	U52599KL2008PTC022978	ब्लूयेच अडवरटैसिंग & मार्केटिंग प्राैवट लिमिटेड
12	U24299KL1972PTC002457	स्टियरेटस एण्ड अलैड केमिकलस प्राैवट लिमिटेड
13	U73100KL2004PLC017058	शिवाशक्ती आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लिमिटेड
14	U74210KL1999PTC012794	कारतिका पवर प्रोजेक्ट्स प्राैवट लिमिटेड
15	U22122KL2007PTC020281	मनवासेवा मिडिया प्राैवट लिमिटेड
16	U72200KL2010PTC026427	अक्कुबिक्स सोफ्टवेयर्ज़ प्राैवट लिमिटेड
17	U31909KL2006PTC020073	कन्नुर इलक्ट्रीकल अप्लायनसस कनसोर्टियम प्राैवट लिमिटेड
18	U22219KL2012PTC030497	एडिलो मीडिया प्राैवट लिमिटेड
19	U29220KL2010PTC025376	तोमसन & सेनज़ो सेफटी एक्वूपमेन्ट्स प्राैवट लिमिटेड
20	U51220KL2011PTC027364	ब्लू बेरग (इण्डिया) बिबरेजस प्राैवट लिमिटेड
21	U51397KL2008PTC021785	एमनन्ट फारमा एण्ड मेडिकल टेक्नोलॉजिस प्राैवट लिमिटेड
22	U67120KL2010PTC026003	प्रोटोपोर्ट सेक्यूरिटिस एण्ड फिनान्सियल सर्वीसस प्राैवट लिमिटेड

1	2	3
23	U52599KL2004PTC017686	गुवारिया मार्केटिंग प्रैवट लिमिटेड
24	U25209KL1996PTC010486	जेमस्टार एन्टरप्राइस प्रैवट लिमिटेड
25	U50500KL2012PTC030518	फलैलैन ट्रेडिंग प्रैवट लिमिटेड
26	U52393KL2011PTC029456	नकशत्रा गोलड प्रैवट लिमिटेड
27	U74200KL2010PTC025513	जवहर पैपलैन वर्कस प्रैवट

एन चन्द्राराज
कंपनी पंजीयक, केरल (इंचार्ज)

कंपनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के बारे में

कोच्चि-682021, दिनांक 26 सितम्बर 2014

सं नोटिस 560 (5)/एफटिड-2014---कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न लिखित कंपनियों के नाम आज राजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कंपनी विधित हो गई हैं 1

क्रम सं.	पंजीकरण नंबर	कंपनी का नाम
1	U45200KL2010PTC025634	कोविलकम बिलडर्ज एण्ड डिवलपर्स प्रैवट लिमिटेड
2	U74140KL2011PTC029344	फिनशैन फिनानसियल अडवैसरीज प्रैवट लिमिटेड

एन चन्द्राराज
कंपनी पंजीयक, केरल (इंचार्ज)

कंपनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के मामले में

बैंगलुरु, दिनांक 07 नवंबर 2014

सं. आरओसी / 560/(5) FTE---नोटिस एतद्वारा धारा उप के अनुसार दिया जाता है (5) खंड के बम से नीचे के नाम उल्लेख किया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की 560, कंपनियों रजिस्टर से काटा दिया गया है और उक्त कंपनियों विधित हो गयी है:-

सी.नो.	सीन	कंपनी नामे
1	2	3
1	U45203KA2007PTC044723	रणजल प्रॉपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
2	U85110KA2005PTC036015	बेस्ट डेंटल अनड सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड
3	U72200KA2010PTC054775	ल्पीजी सल्यूशन्स अनड सर्विसज़ प्राइवेट लिमिटेड
4	U65992KA2008PTC048409	विकटा चिट प्राइवेट लिमिटेड
5	U51311KA2006PTC040463	क्लॉटिस्क्रुए क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
6	U72200KA2006PTC039950	माइंड माप्पेर्स कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
7	U72200KA2010PTC054926	रॉटनेव इन्फर्मेसन टेक्नॉलजीस प्राइवेट लिमिटेड
8	U74900KA2012PTC065012	एक्शस्त्रेआम इंजिनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
9	U92412KA2010PTC052757	फन्मक्स फॅमिली एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
10	U74900KA2011PTC060789	कप्स अनड जोस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
11	U72200KA2011PTC060978	एलॉजिक इन्फटेक प्राइवेट लिमिटेड
12	U72200KA2004PTC033257	डीम्सफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
13	U28112KA2006PTC040139	स्वस्तिक फेंब्रिकेटर्स & ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
14	U40104KA2011PTC060877	बेल्गॉम स्पेशलिटी गॅसस प्राइवेट लिमिटेड
15	U65993KA2008PTC048362	बिग इयर कैपिटल आइवाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड
16	U74900KA2011PTC057629	कार्तिक क्लीनिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
17	U90000KA2011PTC057208	विनोद क्लीनिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
18	U74120KA2013PTC067731	नृमलायाली.कॉम प्राइवेट लिमिटेड
19	U72200KA2005PTC037468	म.के.बननेरजी सॉफ्टवेर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
20	U45203KA2012PTC066983	समसरा इनफ्रेटेक प्राइवेट लिमिटेड
21	U70102KA2011PTC057271	फैल्कन बिल्डकन प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
22	U72200KA2010PTC054793	मेटाडाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड
23	U45200KA2008PTC047513	सृदीप प्रॉपर्टीस प्राइवेट लिमिटेड
24	U27109KA1987PTC008110	केनेरा अब्रेसिक्स अनड कंस्ट्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
25	U72100KA2013PTC067986	इक्ज़ कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
26	U63022KA2012PTC066813	डी.के. अग्रो जिन्निंग & प्रेस्सिंग प्राइवेट लिमिटेड
27	U74999KA2011PTC061512	बैंगलुरु कोल्ड चैन प्राइवेट लिमिटेड
28	U72200KA2011PTC060454	कॉगनिटिवमोबाइल इन्फर्मेशन टेक्नॉलजीस सल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U72900KA2009PTC048772	सिपेंसयर्स सल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
30	U73100KA2010PTC052685	आइडीयल ओर्गन प्राइवेट लिमिटेड
31	U74999KA2008PTC047797	वायला टेलीसर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
32	U01211KA2004PTC033233	साफा सागर गोट फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
33	U72900KA2011PTC058032	पेटल फ्लेम इनोवेटिव टेक्नॉलजीस प्राइवेट लिमिटेड
34	U74210KA2005PTC036969	सी टी ल् इंजिनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
35	U63011KA2011PTC061139	एमसीस टोटल लजिस्टिक्स अनड ट्रैन्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
36	U07010KA2005PTC035907	थैच डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
37	U32107KA2008PTC045006	टेस्टेल कम्यूनिकेशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
38	U51900KA2009PTC048824	बाइनरी ई-शॉप्पे ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
39	U63040KA2006PTC040592	ट्राइल्स टू नोव्हेरे आइवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
40	U72900KA2010PTC054073	वेअवरफक्ष सॉफ्टवेर सल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
41	U72200KA2010PTC052185	वाहिनी नेटवर्क टेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड
42	U31104KA2007PTC042383	हुबली मेटल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
43	U70101KA2008PTC046095	एकोसेंसे रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
44	U91990KA2007PTC041727	स्पस अनड रेसोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
45	U72200KA2013PTC068978	४क्षोर सर्विसज़ प्राइवेट लिमिटेड
46	U85100KA2010PTC054907	एच आइ सी अ ल् हेल्त्कर प्राइवेट लिमिटेड
47	U18101KA1996PTC019800	रटट्राप ग्रॅफिक डीसाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
48	U18101KA2007PTC042651	वंश डीसाइन प्राइवेट लिमिटेड
49	U72200KA2013PTC070461	आर्लल्स टेक्नॉलजीस प्राइवेट लिमिटेड
50	U31108KA2007PTC042229	फ्लूड पवर सल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
51	U72300KA2011PTC060943	टेची दोस्ट रेमोटे सुपपोर्ट प्रिवते लिमिटेड
52	U45209KA2009PTC051502	बुधाराजा होमस प्रिवते लिमिटेड
53	U72200KA2007FTC043272	क्रिक्ट रिसर्च & कॉन्सुल्टिंग प्रिवते लिमिटेड
54	U74140KA2006PTC040842	टेम्पोरल कॉन्सुल्टन्सी प्रिवते लिमिटेड
55	U17100KA2009PTC049417	अरियास्फेरे टेकसटाइलेस इंडिया प्रिवते लिमिटेड
56	U72200KA2007PTC043216	ौम सॉफ्टवेयरे (इंडिया) प्रिवते लिमिटेड
57	U74999KA2013PTC069444	मर्विथ मार्केटिंग सॉल्यूशन्स प्रिवते लिमिटेड

सत्यजित रौल
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 3rd November 2014

No. 22/Cal/2014/SCA(Genl.)—The Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to direct under sub-rule (3) of Rule 4, Order II of Supreme Court Rules, 2013 that the following days be observed as Court Holidays during the year – 2015 :—

LIST OF SUPREME COURT HOLIDAYS 2015

NAME OF HOLIDAY	MONTH & DATE	DAYS OF THE WEEK
New Year Holiday	January 1	Thursday
Local Holiday	January 2	Friday
Local Holiday	January 23	Friday
Republic Day	January 26	Monday
Holi Holidays	March 2 to March 7	Monday to Saturday
Ram Navami	March 28	Saturday
Mahavir Jayanti	April 2	Thursday
Good Friday	April 3	Friday
Buddha Purnima	May 4	Monday
Local Holiday	July 17	Friday
Idul Fitr	July 18	Saturday
Independence Day	August 15	Saturday
Raksha Bandhan	August 29	Saturday
Janmashtami	September 5	Saturday
Id-ul-Zuha (Bakrid)	September 25	Friday
Mahatma Gandhi's Birthday	October 2	Friday
Dussehra Holidays & Muharram	October 19 to October 24	Monday to Saturday
Diwali Holidays	November 9 to November 14	Monday to Saturday
Guru Nanak's Birthday	November 25	Wednesday
Milad-un-Nabi or Id-E-Milad	December 24	Thursday
Christmas & New Year Holidays	December 17 to January 1, 2016	Thursday to Friday

NOTE : The Summer Vacation of the Court will commence from Monday, the 18th May, 2015 and the Court will resume its sitting after the Vacation on Wednesday, the 1st July, 2015.

By Order,

RAJ PAL ARORA
REGISTRAR (ADMN. GENL.)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 31st October 2014

No. A-38013/02/2014-Admn.II—Consequent upon her attaining the age of superannuation, Smt. Gauri Devi, Supdt. (DP) in the office of the Union Public Service Commission stands retired from Government Service with effect from the afternoon of 31.10.2014 (31st October 2014).

SURESH KUMAR NAYAK
Under Secretary (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi, the 24th September 2014

No. D.I.09/2009-2013-Pers-DA-8—Consequent on his selection for appointment to the post of Addl. SP (Ops) for posting in LWE/naxal affected districts of Bihar for a period of three years on deputation basis vide MHA letter No. I-21022/1/2013-Pers-II dated 04/04/2014 and Addl. Secretary, Home (Police) Department Govt of Bihar Notification No. 2/D-01-203/09(Part-II) G.R 4974/Patna-15 dated 18/06/2014, services of Shri Lallan Kumar Pandey, Dy.Comdt (IRLA- 6445) of CTC GWL is placed at the disposal of DG Bihar Police w.e.f. 24/09/2014(AN).

M. C. PANWAR
DIGP (Pers)

The 27th October 2014

No. O.II-3994/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. S. Masud Hyder, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 17-10-2014 (FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

No. O.II-3995/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Vivekanand, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 20-10-2014 (FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

No. O.II-3996/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Sushil Kumar, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 20-10-2014 (FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

No. O.II-3997/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Ajith K T, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 15-10-2014 (FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

No. O.II-3998/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Benjamin Seb, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 22-10-2014 (FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

The 31st October 2014

No. O.II-3999/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. S MD Iqbal, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 21-10-2014 (FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

No. O.II-4000/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Sonali Bhattacharya, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 21-10-2014 (FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

No. O.II-4003/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Shekar Reddy Nalabolu, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 27-10-2014 (FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

No. O.II-4004/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Devesh Chatterjee, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 28-10-2014(FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

No. O.II-4005/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Easwara Venkata Kiran, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/ Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 28-10-2014 (FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT),
ODISHA

Bhubaneswar, the 5th November 2014

No. Admn(G&SSA)/17-2(AO)/Vol.VIII/1984—In pursuance of OOC No. 844 dated 31.10.2014 communicated vide Memo No. Admn (G&SSA)-17-2/ (AO)/Vol.VIII /1961 dated 31.10.2014 the following Asstt. Audit Officers on promotion have assumed the charge as Audit Officer (Civil) in Pay Band – 2 (₹ 9300 – ₹ 34800/-) with corresponding Grade Pay of ₹ 5400/- with effect from the dates as indicated against them:--

Sl. No.	Name of the Officers (S/Shri)	Date of taking over charge as Audit Officer
01.	Bhabagrahi Paikaray	03.11.2014 FN
02.	Samir Kumar Panda	03.11.2014 FN

BHAGABAN NAYAK
Sr. Audit Officer/ Admn.

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 31st October 2014

No. PD/9(1)/2014-R-IV/12715—The President is pleased to appoint the undermentioned persons in Bhabha Atomic Research Centre to the post in the Pay Band and Grade Pay with effect from the date of appointment as shown in column 3 to 5, until further orders :—

Sr. No.	Name	Appointed as	Pay Band (₹)	Date of Appointment
1	2	3	4	5
1.	Dr. Goutam Kumar Kole	Scientific Officer 'D'	15600-39100+6600 (GP)	05.08.2014 (FN)
2.	Dr. Vivek Vijay Parkar	Scientific Officer 'D'	15600-39100+6600 (GP)	07.08.2014 (FN)
3.	Dr. Rohini Garg	Scientific Officer 'D'	15600-39100+6600 (GP)	13.08.2014 (AN)
4.	Shri Arghya Chattaraj	Scientific Officer 'C'	15600-39100+5400 (GP)	11.09.2014 (FN)
5.	Shri Sandipan Dawn	Scientific Officer 'C'	15600-39100+5400 (GP)	11.09.2014 (FN)

M. V. SREEDHARAN
Deputy Establishment Officer

The 3rd November 2014

No. PD/2(21)/2012-R-IV—The President is pleased to appoint Shri Velaga Srihari as Scientific Officer (D) in the Pay of ₹ 15600-39100 + ₹ 6600 Grade Pay in Bhabha Atomic Research Centre in a temporary capacity with effect from the forenoon of 14th October, 2014 until further orders.

M. V. SREEDHARAN
Deputy Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai- 400 001, the 31st October 2014

No. 20/17(2)/2013-CCS/13584—On attaining the age of superannuation, Shri Praveen Kumar Chopra, Joint Director (Official Language), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department, retired from Government Service on 30.09.2014 (AN).

A. SUKUMARAN
Under Secretary

No. 20/17(2)/2013-CCS/13585—The President is pleased to appoint Shri P. Sethumadhavan, Assistant Personnel Officer (PB-2, Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 5,400/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department as Administrative Officer-III (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) in the same unit on ad-hoc basis, w.e.f. 30.07.2014 (FN) to 12.09.2014 (AN).

A. SUKUMARAN
Under Secretary

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai 400 094, the 30th October 2014

No. DPS/07019/Rectt/3788—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy, appoints Kum. Minu K. Grover, Sr. Storekeeper (Pay Band (PB-2) ₹ 9,300—34,800/- + Grade Pay ₹ 4,200/-), Central Stores Unit, Directorate of Purchase & Stores, Mumbai, as Assistant Stores Officer in the Pay Band (PB-2) ₹ 9,300—34,800/- + Grade Pay ₹ 4,800/-, in the Stores Unit, Directorate of Purchase & Stores, Nuclear Recycle Board, Tarapur, w.e.f the forenoon of 26th September, 2014, until further orders.

S. Y. KAMBLE
Administrative Officer-III

DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT

Mumbai-400 094, the 30th October 2014

No. DCSEM/A/2(199)/2014-Rectt./1906—The President is pleased to appoint the following Officers in the Directorate of Construction, Services and Estate Management, Department of Atomic Energy, Mumbai on their promotion to the grade and date mentioned against each until further orders :—

S/No.	Name	Grade on Promotion	Pay Band (Rs)	Grade Pay (Rs)	Date of Assumption of Charge
1.	Shri N. P. Vispute	SO/F	PB 4, Rs.37400-67000	8700	01/07/2014 (FN)
2.	Shri K. Unnikrishnan	SO/F	PB 4, Rs.37400-67000	8700	01/07/2014 (FN)
3.	Shri A. K. Mathur	SO/F	PB 4, Rs.37400-67000	8700	01/07/2014 (FN)
4.	Shri Satish Kumar Saini	SO/F	PB 4, Rs.37400-67000	8700	01/07/2014 (FN)

S/No.	Name	Grade on Promotion	Pay Band (Rs)	Grade Pay (Rs)	Date of Assumption of Charge
5.	Shri Sameer J. Jadhav	SO/F	PB 4, Rs.37400-67000	8700	01/07/2014 (FN)

B. JAGAN MOHAN RAO
Administrative Officer-III

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

O/o. REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of following Companies

Kanpur-208001, the 10th November 2014

No. LC/560(3)/9619—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved :—

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
1	KALPAVRIKSHA RESOURCE SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900UP2013PTC060017	C17386905
2	QUDOSS LABORATORIES PRIVATE LIMITED	U24233UP2009PTC036673	C22184972
3	A .M. CRYSTALS PRIVATE LIMITED	U74900UP2007PTC033103	C22340707
4	RELIFE FINANCIAL SERVICES LIMITED	U65923UP2012PLC049018	C22389969
5	MINDSYS INFOTECH LIMITED	U72200UP1996PLC019258	C22590194
6	RKS MULTITRADE PRIVATE LIMITED	U93030UP2012PTC049683	C22679096
7	COROHOME INFRASTRUCTURE & DEVELOPER PRIVATE LIMITED	U45400UP2012PTC049001	C22745947
8	GURUKRIPA WEB SOLUTION PRIVATE LIMITED	U72300UP2009PTC038900	C22774475
9	INNOVAA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U24232UP1993PTC015626	C22857940
10	WHITE THREAD CLOTHING PRIVATE LIMITED	U17291UP2012PTC050385	C23288814
11	EDUSCHOLAR KNOWLEDGE MANAGEMENT INSTITUTE PRIVATE LIMITED	U80301UP2008PTC036431	C23474323
12	PRITHVI INFRAPROMOTERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2010PTC039901	C23585615
13	INDUS POWERTECH PRIVATE LIMITED	U40300UP2011PTC044961	C23587983
14	ZERO HOUR MEDIA & COMMUNICATION PRIVATE LIMITED	U22300UP2008PTC035426	C23686173
15	DISCOVER BUILDERS & PROMOTERS PRIVATE LIMITED	U45400UP2007PTC033236	C23720303

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
16	ALK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC057160	C23753122
17	SHAASTRA INNOVATION LABS PRIVATE LIMITED	U35122UP2013PTC057822	C23846900
18	STANFIRST EDUCATION PRIVATE LIMITED	U80904UP2013PTC059271	C23850597
19	REP FURNISHINGS INDIA PRIVATE LIMITED.	U36101UP2006FTC034597	C24302655
20	M.S.CONTRACTORS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45201UP2000PTC025391	C24627069
21	AKHIL AMIT IRON AND STEEL CORPORATION PRIVATE LIMITED	U27310UP2012PTC052719	C24878647
22	BHARTI FOODS PRIVATE LIMITED	U65910UP1989PTC010702	C25237447
23	RIDDHIMA EDIBLES PRIVATE LIMITED	U15122UP2010PTC042904	C25334939
24	VISIONTWENTYONE INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72200UP2008PTC035151	C25381583
25	REALFUTURE MEGAMART & INSURANCE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC037072	C25407305
26	AISLES AND BAYS TRADING PRIVATE LIMITED	U74999UP2011PTC047333	C25118720
27	AKRATI INFRACON PRIVATE LIMITED	U45400UP2011PTC043266	C25495979
28	NOVISLOGIC SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300UP2012PTC051163	C25302506
29	RCONCEPTS CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC045935	C26295055
30	DOAB ENERGY LIMITED	U40300UP2011PLC046724	C26470393
31	ECOGREEN REALESTATE (INDIA) LIMITED	U70102UP2010PLC041380	C26933283
32	SHALLABH RADHIKA DESIGNS PRIVATE LIMITED	U18204UP2013PTC055534	C28294320
33	ASTHANA INFOSOFTE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300UP2012PTC049710	C28491041
34	NSG ELECTRICALS PRIVATE LIMITED	U31908UP2013PTC059727	C28332708
35	GULAB CHAND CHOTTEY LAL (IRON FOUNDRY) PRIVATE LIMITED	U27202UP1997PTC022758	C28814226
36	GEODRISHTI INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200UP2009PTC036598	C28890416
37	IS MEDICAL NETWORK PRIVATE LIMITED	U74900UP2010PTC039650	C29042835
38	MULTIFIVE CONSUMER STORE (INDIA) PRIVATE LIMITED	U52100UP2010PTC042487	C29212818
39	RIVERO ELECTRICALS PRIVATE LIMITED	U31908UP2010PTC039367	C29296985
40	ROLE CALL MANAGEMENT SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U93030UP2011PTC046291	C29346384
41	PINNACLE INFRAREALTORS PRIVATE LIMITED	U45400UP2012PTC050446	C29511383

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
42	SIDHYVINAYAK TRADING PRIVATE LIMITED	U51101UP2013PTC057233	C30114193
43	SATYASAI FINANCIAL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED	U67190UP2012PTC049548	C30114664
44	VINEET DAIRY PRIVATE LIMITED	U15200UP2005PTC030184	C30115141
45	ANIMATION MEDIA PRIVATE LIMITED	U80904UP2009PTC036965	C30173439

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Chandigarh, the 31st October 2014

No. ROC/560(5) FTE/2013—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved :—

S. No.	Company No.	Name of the Company
1.	28422	New West Fashions Private Limited
2.	35223	Purple Patch Immigration Consultants Private Limited
3.	32307	Saarthi Events Private Limited
4.	34835	Credence Labs Limited
5.	27045	Dashmesh Solvex Private Limited
6.	34534	A2Z Biznet (India) Private Limited
7.	12469	Angel Matrix Private Limited
8.	26922	Himachal Highways Private Limited
9.	30865	Shiva Furnishings Private Limited
10.	25999	East West Forex Private Limited
11.	37234	K G Duggal Unitrade Private Limited
12.	34524	Sureshwaram Enterprises Private Limited
13.	34650	SSKP Holding Private Limited
14.	30841	Ideo Informatics Private Limited
15.	35544	Carbon Energy Resources Private Limited
16.	17896	Anjali Steels Private Limited
17.	35529	Ajit Impex Private Limited
18.	37332	DBA Marketing Private Limited
19.	36658	S N Motels And Resorts Private Limited
20.	33238	BDS Infotech Private Limited
21.	34415	Globcare Pharmaceuticals Private Limited
22.	33348	S J Ispat Private Limited
23.	31516	Ambay Yarns And Fibres Private Limited

S. No.	Company No.	Name of the Company
24.	17697	Sant Doors Private Limited
25.	31798	Gohoto Travels Private Limited
26.	19576	LNG Automation Private Limited
27.	08261	Creative Consorts Private Limited
28.	31525	Avon Breweries Private Limited
29.	34928	Vivastate. Com Property Management Software Private Limited
30.	37227	Krishan Som Exports Private Limited
31.	31006	Mobera Embedded Software Private Limited
32.	34144	Apan Technologies Private Limited

VILAS GAJANAN NIPANE
Asstt. Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s HOLLANDIA BUSINESS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

Panaji-403001, the 1st November 2014

No. 5093—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of HOLLANDIA BUSINESS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SUDHIR LILADHAR PHAYE
Assistant Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act 1956 and of the following companies

Kochi-682021, the 25th September 2014

No. Notice u/s. 560(5)/FTE-2014—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Co. Reg. No.	Company Name
1	U15495KL1987PLC004677	KAYS SPICES AND AGRO INDUSTRIES LTD
2	U60230KL2012PTC032697	KANNUR LOGISTICS CENTRE PRIVATE LIMITED
3	U63040KL2006PTC019129	CHALLENGER ONE ADVENTURE TOURISM PRIVATE LIMITED
4	U74900KL2013PTC033913	J B VENTURES PRIVATE LIMITED
5	U51398KL2006PTC019524	X-PATS JEWELS PRIVATE LIMITED
6	U72200KL2011PTC027788	VAJRANG INFOTECH PRIVATE LIMITED
7	U63040KL2010PTC026081	ECOSPACE TOURISM INNOVATIONS NETWORK PRIVATE LIMITED
8	U52393KL2009PTC024020	BLACK-GOLD SPICES & FOODS PRIVATE LIMITED
9	U45201KL2006PTC019782	KERALA HABITAT ENGINEERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	Co. Reg. No.	Company Name
10	U55100KL2010PTC025339	AARAM HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
11	U52599KL2008PTC022978	BleuYeux Advertising & Marketing Private Limited
12	U24299KL1972PTC002457	STEARATES AND ALLIED CHEMICALS PVT LTD
13	U73100KL2004PLC017058	SIVASAKTHI AYURVEDIC RESEARCH CENTRE LIMITED
14	U74210KL1999PTC012794	KARTHIKA POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
15	U22122KL2007PTC020281	MANAVASEVA MEDIA PRIVATE LIMITED
16	U72200KL2010PTC026427	ACCUBIX SOFTWARES PRIVATE LIMITED
17	U31909KL2006PTC020073	KANNUR ELECTRICAL APPLIANCES CONSORTIUM PRIVATE LIMITED
18	U22219KL2012PTC030497	AELLOW MEDIA PRIVATE LIMITED
19	U29220KL2010PTC025376	THOMSON & SENZO SAFETY EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
20	U51220KL2011PTC027364	BLUE BERG (INDIA) BEVERAGES PRIVATE LIMITED
21	U51397KL2008PTC021785	EMANANT PHARMA AND MEDICAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
22	U67120KL2010PTC026003	PROTOPORT SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
23	U52599KL2004PTC017686	GUARIA MARKETING PRIVATE LIMITED
24	U25209KL1996PTC010486	GEMSTAR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
25	U50500KL2012PTC030518	FLYLINE TRADING PRIVATE LIMITED
26	U52393KL2011PTC029456	NAKSHATHRA GOLD PRIVATE LIMITED
27	U74200KL2010PTC025513	JAWAHER PIPELINE WORKS PRIVATE LIMITED

N. CHANDRARAJ
REGISTRAR OF COMPANIES
KERALA
(IN CHARGE)

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following companies

Kochi-682021, the 26th September 2014

No. Notice u/s. 560(5)/FTE-2014—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Co. Reg. No.	Company Name
1	U45200KL2010PTC025634	KOVILAKOM BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2	U74140KL2011PTC029344	FINSHINE FINANCIAL ADVISORIES PRIVATE LIMITED

N. CHANDRARAJ
REGISTRAR OF COMPANIES
KERALA
(IN CHARGE)

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956 AND OF THE FOLLOWING COMPANIES

BANGALORE, THE 07TH NOVEMBER 2014

NO. ROC/560/(5) FTE—NOTICE IS HEREBY GIVEN PURSUANT TO SUB-SECTION (5) OF SECTION 560 OF THE COMPANIES ACT, 1956, THAT THE NAMES OF THE UNDER MENTIONED COMPANIES FROM SERIAL NUMBER 1 to 57 HAVE BEEN STRUCK OFF FROM THE REGISTER AND THE SAID COMPANIES STAND DISSOLVED :—

Sl.NO.	CIN	COMPANY NAME
1	U45203KA2007PTC044723	RINJAL PROPERTIES PRIVATE LIMITED
2	U85110KA2005PTC036015	BEST DENTAL AND SURGICAL PRIVATE LIMITED
3	U72200KA2010PTC054775	LPG SOLUTIONS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
4	U65992KA2008PTC048409	VIKATA CHITS PRIVATE LIMITED
5	U51311KA2006PTC040463	CLOTHISQUE CREATIONS PRIVATE LIMITED
6	U72200KA2006PTC039950	MIND MAPPERS CONSULTING PRIVATE LIMITED
7	U72200KA2010PTC054926	ROTANEV INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
8	U74900KA2012PTC065012	EXSTREAM ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED
9	U92412KA2010PTC052757	FUNMAX FAMILY ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
10	U74900KA2011PTC060789	KAPS & JOS VENTURES PRIVATE LIMITED
11	U72200KA2011PTC060978	ELOGIC INFOTECH PRIVATE LIMITED
12	U72200KA2004PTC033257	DEEMSOFT PRIVATE LIMITED
13	U28112KA2006PTC040139	SWASTIK FABRICATORS AND TRADING PRIVATE LIMITED
14	U40104KA2011PTC060877	BELGAUM SPECIALITY GASES PRIVATE LIMITED
15	U65993KA2008PTC048362	BIG EAR CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED
16	U74900KA2011PTC057629	KARTHIK CLEANING SERVICES PRIVATE LIMITED
17	U90000KA2011PTC057208	VINODH CLEANING SERVICES PRIVATE LIMITED
18	U74120KA2013PTC067731	NRIMALAYALEE.COM PRIVATE LIMITED
19	U72200KA2005PTC037468	M.K.BANNERJEE SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
20	U45203KA2012PTC066983	SAMASRA INFRATECH PRIVATE LIMITED
21	U70102KA2011PTC057271	FALCON BUILDCON PROJECTS PRIVATE LIMITED
22	U72200KA2010PTC054793	METADATA PROCESSING PRIVATE LIMITED
23	U45200KA2008PTC047513	SRIDEEP PROPERTIES PRIVATE LIMITED

Sl.NO.	CIN	COMPANY NAME
24	U27109KA1987PTC008110	CANARA ABRASIVES AND CASTINGS PRIVATE LIMITED
25	U72100KA2013PTC067986	IQS CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
26	U63022KA2012PTC066813	D.K. AGRO GINNING & PRESSING PRIVATE LIMITED
27	U74999KA2011PTC061512	BENGALURU COLD CHAIN PRIVATE LIMITED
28	U72200KA2011PTC060454	COGNITIVEMOBILE INFORMATION TECHNOLOGIES SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
29	U72900KA2009PTC048772	SIPENSYS SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
30	U73100KA2010PTC052685	IDEAL ORGAN PRIVATE LIMITED
31	U74999KA2008PTC047797	VOILA TELESERVICES PRIVATE LIMITED
32	U01211KA2004PTC033233	SAFA SAGAR GOAT FARMS PRIVATE LIMITED
33	U72900KA2011PTC058032	PETAL FLAME INNOVATIVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
34	U74210KA2005PTC036969	CTL ENGINEERING PRIVATE LIMITED
35	U63011KA2011PTC061139	EMCEES TOTAL LOGISTICS AND TRANSPORTS PRIVATE LIMITED
36	U07010KA2005PTC035907	THATCH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
37	U32107KA2008PTC045006	TESTEL COMMUNICATIONS INDIA PRIVATE LIMITED
38	U51900KA2009PTC048824	BINARY E-SHOPPE TRADING INDIA PRIVATE LIMITED
39	U63040KA2006PTC040592	TRAILS TO NOWHERE ADVENTURES PRIVATE LIMITED
40	U72900KA2010PTC054073	WEAVERFX SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
41	U72200KA2010PTC052185	VAHINI NETWORK TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
42	U31104KA2007PTC042383	HUBLI METAL TRADING PRIVATE LIMITED
43	U70101KA2008PTC046095	ECOSENSE REALTY PRIVATE LIMITED
44	U91990KA2007PTC041727	SPAS AND RESORTS INDIA PRIVATE LIMITED
45	U72200KA2013PTC068978	4XOR SERVICES PRIVATE LIMITED
46	U85100KA2010PTC054907	HICAL HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
47	U18101KA1996PTC019800	RATTRAP GRAPHIC DESIGN STUDIO PRIVATE LIMITED
48	U18101KA2007PTC042651	VANSH DESIGNS PRIVATE LIMITED
49	U72200KA2013PTC070461	ARRELLS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
50	U31108KA2007PTC042229	FLUID POWER SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED

Sl.NO.	CIN	COMPANY NAME
51	U72300KA2011PTC060943	TECHIE DOST REMOTE SUPPORT PRIVATE LIMITED
52	U45209KA2009PTC051502	BUDHARAJA HOMES PRIVATE LIMITED
53	U72200KA2007FTC043272	CRICT RESEARCH & CONSULTING PRIVATE LIMITED
54	U74140KA2006PTC040842	TEMPORAL CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
55	U17100KA2009PTC049417	ARIASPHERE TEXTILES INDIA PRIVATE LIMITED
56	U72200KA2007PTC043216	AUM SOFTWARE (INDIA) PRIVATE LIMITED
57	U74999KA2013PTC069444	MARWITH MARKETING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

SATYAJIT ROUL
ASSTT. REGISTRAR OF COMPANIES
KARNATAKA

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014
www.dop.nic.in